

No. of Questions – 20

No. of Pages - 2

वार्षिक परीक्षा 2024

कक्षा – 6

विषय – विज्ञान

पूर्णांक–80

समय : 02:30 घण्टे

नोट :- सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं तथा प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित हैं।

1. बहुविकल्पीय प्रश्न :-

- (i) विटामीन C की कमी से रोग होता है – 1
 (a) रंतौंधी (b) बेरी-बेरी (c) स्कर्वी (d) रिकेट्स
- (ii) निम्न में से जल में विलेय पदार्थ है । 1
 (a) लकड़ी (b) मिट्टी (c) कांच (d) नमक
- (iii) जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है – 1
 (a) वाष्पन (b) निष्पावन (c) थ्रेशिंग (d) अवसादन
- (iv) निम्न में से पुष्प का भाग है – 1
 (a) स्त्रीकेसर (b) पँखुड़ी (c) पुंकेसर (d) उपर्युक्त सभी
- (v) मरुस्थल में पाया जाने वाला जन्तु है – 1
 (a) ध्रवीय भालू (b) केंचुआ (c) ऊँट (d) मछली

2. उचित शब्द छाँट कर निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए । $8 \times 1 = 8$

(विटामिन C, दो, घुर्णन गति, कब्जा, थ्रेशिंग, स्थलीय, रिकेट्स, पारदर्शी)

- (i) पत्थर अपारदर्शी होता है, जबकि कांच होता है ।
 (ii) की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है।
 (iii) विटामिन D के अभाव से होता है ।
 (iv) धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को कहते हैं।
 (v) कोहनी की अस्थियाँ संधि द्वारा जुड़ी होती हैं।
 (vi) स्थल पर पाए जाने वाले जन्तुओं के आवास को आवास कहते हैं।
 (vii) किसी साईकिल के पहिये की गति होती है।
 (viii) एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं।

3. हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए । 2
 4. पारदर्शी व अपारदर्शी पदार्थों में उदाहरण सहित अंतर बताइए । 2
 5. छालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? 2
 6. पोधे में तने का क्या कार्य है? 2
 7. सजीव एवं निर्जिव वस्तुओं के दो-दो उदाहरण दीजिए । 2
 8. राधा के घर एवं उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर एवं सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए । 2
 9. विद्युत रोधक पदार्थ किसे कहते हैं? दो उदाहरण बताइए । 3
 10. चुंबक के कोई दो गुण लिखिए । दो चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए । 4

No. of Questions – 20

No. of Pages - 2

वार्षिक परीक्षा 2024

कक्षा – 6

विषय – विज्ञान

पूर्णांक–80

समय : 02:30 घण्टे

नोट :- सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं तथा प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सामने अंकित हैं।

1. बहुविकल्पीय प्रश्न :-

- (i) विटामीन C की कमी से रोग होता है – 1
 (a) रंतौंधी (b) बेरी-बेरी (c) स्कर्वी (d) रिकेट्स
- (ii) निम्न में से जल में विलेय पदार्थ है । 1
 (a) लकड़ी (b) मिट्टी (c) कांच (d) नमक
- (iii) जल को वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है – 1
 (a) वाष्पन (b) निष्पावन (c) थ्रेशिंग (d) अवसादन
- (iv) निम्न में से पुष्प का भाग है – 1
 (a) स्त्रीकेसर (b) पँखुड़ी (c) पुंकेसर (d) उपर्युक्त सभी
- (v) मरुस्थल में पाया जाने वाला जन्तु है – 1
 (a) ध्रवीय भालू (b) केंचुआ (c) ऊँट (d) मछली

2. उचित शब्द छाँट कर निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए । $8 \times 1 = 8$

(विटामिन C, दो, घुर्णन गति, कब्जा, थ्रेशिंग, स्थलीय, रिकेट्स, पारदर्शी)

- (i) पत्थर अपारदर्शी होता है, जबकि कांच होता है ।
 (ii) की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है।
 (iii) विटामिन D के अभाव से होता है ।
 (iv) धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को कहते हैं।
 (v) कोहनी की अस्थियाँ संधि द्वारा जुड़ी होती हैं।
 (vi) स्थल पर पाए जाने वाले जन्तुओं के आवास को आवास कहते हैं।
 (vii) किसी साईकिल के पहिये की गति होती है।
 (viii) एक विद्युत सेल में टर्मिनल होते हैं।

3. हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए । 2
 4. पारदर्शी व अपारदर्शी पदार्थों में उदाहरण सहित अंतर बताइए । 2
 5. छालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? 2
 6. पोधे में तने का क्या कार्य है? 2
 7. सजीव एवं निर्जिव वस्तुओं के दो-दो उदाहरण दीजिए । 2
 8. राधा के घर एवं उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर एवं सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए । 2
 9. विद्युत रोधक पदार्थ किसे कहते हैं? दो उदाहरण बताइए । 3
 10. चुंबक के कोई दो गुण लिखिए । दो चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए । 4

11. मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र बनाकर समझाइए। 4
12. वायुमण्डल में कौन—कौनसी गैसें पायी जाती हैं? श्वसन के लिए कौनसी गैस आवश्यक है? 4
13. मछली की शारीरिक संरचना उसे जल में रहने में किस प्रकार सहायक है? 4
14. आवास किसे कहते हैं? जलीय आवास में रहने वाले तीन जीवों के नाम लिखिए। 4
15. कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। 4
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| कॉलम 1 | कॉलम 2 |
| (i) झूलते बच्चे की गति | (क) वर्तुल गति |
| (ii) पहिए की गति | (ख) आवर्ती गति |
| (iii) सिलाई मशीन की सुई की गति | (ग) सरलरेखीय गति |
| (iv) वाहन की गति | (घ) घूर्णन गति |
16. अवसादन एवं निस्तारण से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित समझाइए। 5
17. निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए: 5
- (क) सन्तुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है।
 - (ख) तेल जल के साथ मिश्रणीय है।
 - (ग) नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं।
 - (घ) तिलचट्ठों में बाह्य कंकाल पाया जाता है।
 - (ङ) जलकुंभी एक सजीव पदार्थ है।
18. निम्न के नामांकित चित्र बनाइए – (i) पत्ती (ii) पुष्ट 3 + 3 = 6
19. (अ) विद्युत परिपथ में स्विच का क्या उपयोग है?
 (ब) घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत-मिस्ट्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए। 2+4 = 6
 अथवा
 छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? समझाइए।
20. वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण की तकनीकों को विस्तार से समझाइए। 2+4 = 6
 अथवा
 थ्रेशिंग किसे कहते हैं? हस्त चयन विधि एवं निष्पावन विधि को उदाहरण सहित समझाइए।
11. मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र बनाकर समझाइए। 4
12. वायुमण्डल में कौन—कौनसी गैसें पायी जाती हैं? श्वसन के लिए कौनसी गैस आवश्यक है? 4
13. मछली की शारीरिक संरचना उसे जल में रहने में किस प्रकार सहायक है? 4
14. आवास किसे कहते हैं? जलीय आवास में रहने वाले तीन जीवों के नाम लिखिए। 4
15. कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। 4
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| कॉलम 1 | कॉलम 2 |
| (i) झूलते बच्चे की गति | (क) वर्तुल गति |
| (ii) पहिए की गति | (ख) आवर्ती गति |
| (iii) सिलाई मशीन की सुई की गति | (ग) सरलरेखीय गति |
| (iv) वाहन की गति | (घ) घूर्णन गति |
16. अवसादन एवं निस्तारण से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित समझाइए। 5
17. निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए: 5
- (क) सन्तुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है।
 - (ख) तेल जल के साथ मिश्रणीय है।
 - (ग) नमक तथा चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक कर सकते हैं।
 - (घ) तिलचट्ठों में बाह्य कंकाल पाया जाता है।
 - (ङ) जलकुंभी एक सजीव पदार्थ है।
18. निम्न के नामांकित चित्र बनाइए – (i) पत्ती (ii) पुष्ट 3 + 3 = 6
19. (अ) विद्युत परिपथ में स्विच का क्या उपयोग है?
 (ब) घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत-मिस्ट्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए। 2+4 = 6
 अथवा
 छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? समझाइए।
20. वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? वर्षा जल संग्रहण की तकनीकों को विस्तार से समझाइए। 2+4 = 6
 अथवा
 थ्रेशिंग किसे कहते हैं? हस्त चयन विधि एवं निष्पावन विधि को उदाहरण सहित समझाइए।